



B
19/12/83

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494
No. 494

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 1983/कार्तिक 16, 1905
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 1983/KARTIKA 16, 1905

इस भाग में छिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1983

का. आ. 796 (अ).—आरोविन (आपात्कालीन उपबन्ध)
अधिनियम, 1980 (1980 का 59) (आगे इसे उक्त अधिनियम
कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनु-
सरण में आरोविन का प्रबन्ध 10 नवम्बर, 1980 से प्रारम्भ में
दो वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय सरकार में निहित हो गया
था और उसके बाद भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-
खण्ड (2) दिनांक 6 नवम्बर, 1982 में प्रकाशित भारत सरकार,
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना एन ओ संख्या 783
(ई) दिनांक 6 नवम्बर, 1982 द्वारा इसकी अवधि और एक वर्ष
के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि आरोविन का उचित
प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए यह समीचीन है कि ऐसा प्रबन्ध
10 नवम्बर, 1983 से एक वर्ष की और अवधि के लिए उक्त
सरकार में बना रहना चाहिए ,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार

एतद्वारा यह निर्देश देती है कि आरोविन का प्रबन्ध
10 नवम्बर, 1983 से एक वर्ष की और अवधि के लिए केंद्रीय
सरकार में निहित रहेगा ।

[सं. एफ. 27-3/83-द. यू. (आरो.)]

एल. एम. गुजराल (डॉ.), सहायक शिक्षा सलाहकार

MINISTRY OF EDUCATION AND
CULTURE

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 1983

S.O.796(E).—whereas in pursuance of the
provisions of sub-section(1) of section 3 of the
Auroville (Emergency Provisions) Act, 1980
(59 of 1980) (hereinafter referred to as the said
Act), the management of Auroville was vested in
the Central Government for a period of two years
from the 10th day of November 1980 initially
and thereafter extended for another one year vide
Government of India in the Ministry of Education
and Culture Notification S.O.No.783(E), dated

the 6th November, 1982 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the November 6, 1982.

And whereas the Central Government is of the opinion that in order to secure the proper management of Auroville it is expedient that such management should continue to vest in that Government for a further period of one year from the 10th November, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that the management of Auroville shall continue to vest in the Central Government for a further period of one year from the 10th November, 1983.

[No. F. 27-3/83-UU(Aur)]

L. M. GUJRAL (Dr.) Asst. Education Adviser.